



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2006/फाल्गुन 5, 1927

No. 169]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2006/PHALGUNA 5, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2006

का.आ. 244(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 1285 (अ) तारीख 13 सितम्बर, 2005 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 61.00 कि.मी. से 136.500 कि.मी. (भुवनेश्वर-कोलकाता सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण करने, अनुक्षण, प्रबंधन और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार तारीख 30 अक्टूबर, 2005 को “समय” और तारीख 30 अक्टूबर, 2005 को “प्रगतिवादी” में प्रकाशित किया गया था ;

और भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुये थे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार कर लिया गया है और उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी वित्तीयगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जायेगी ।

(1)

अनुसूची

उत्तरांचल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के 81.00 कि.मी. से 136.500 कि.मी. (मुम्बई-कोलकाता सेक्शन) तथा के भूखण्ड का निर्माण करने (चौड़ा करने) के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि

क्र. संख्या	गाँव का नाम	पुलिस थाना	तहसील	खाला सं.	प्लॉट सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूखण्ड/अन्य हितवादी व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जिला : जाजपुर									
1	संगुदा	बदचना	दर्पण	721	1305	निजी	सरद-III	0.03	साबित्री कार पत्नी प्रफुल्ला कार, प्रमोद कार पुत्र विद्याधर कार, कांचिया, पी.एस.-धर्मशाला
				354	1302	निजी	सरद-III	0.03	निरुदा कुमार नायक पुत्र करुणासिंधु नायक, अलीजंगा, पी.एस. बदचना
				677	1301	निजी	सरद-III	0.07	शैलेन्द्र कुमार नायक, मनिंद्र नायक, अमरेंद्र नायक पुत्र निरोद कुमार नायक, अलीजंगा, पी.एस. बदचना
				807	1317	सरकारी	ग्राम्य जंगल	0.07	रखिता अनाबादी
2	बलिबिरे	धर्मशाला	धर्मशाला	90	131	सरकारी	गोबर	0.16	रखिता अनाबादी
3	ओदांग	धर्मशाला	धर्मशाला	27	760	निजी	पतीत (हाटा)	0.04	आनंद खुटिया पुत्र रामा खुटिया, ब्रज खुटिया पुत्र दनेई खुटिया, ओदांग, पी. एस. धर्मशाला
				30	768	निजी	घराबरी	0.01	अकुरा दास, कानका दास, गोरी दास पुत्र भवन दास, पोका दास पत्नी भवन दास, अरुण दास, सुजाता दास पुत्र/पुत्री फकीरा दास, दुर्गावती दास पत्नी फकीरा दास, ओदांग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				38	626	निजी	बियाली	0.09	सुरेश पांडा पुत्र हरि पांडा, तर्पईलोकिपा पांडा पुत्र पुनन्दा पांडा, रुद्रा चरण पांडा, सेशदेव पांडा पुत्र धानी पांडा, बेनुषार दास, जयंती दास पुत्र/पुत्री दामोदर दास, भारती पांडा पत्नी मीन पांडा, सेबाती पांडा, मालती पांडा पुत्र/पुत्री बानामाली पांडा, सुरेश पाटी पुत्र नासयण पाटी, ओदांग
				41	683	निजी	बियाली	0.02	रघु मलिक, जगबंधु मलिक, निरुपमा मलिक, कानका मलिक पुत्र एवं पुत्री निधि मलिक, ओदांग
				52	767	निजी	घराबरी	0.13	गाजी परिडा, शिखर परिडा, सुधीर परिडा, बैधर परिडा पुत्र भोबानी परिडा, ओदांग
				52	769	निजी	घराबरी	0.05	गाजी परिडा, शिखर परिडा, सुधीर परिडा, बैधर परिडा पुत्र भोबानी परिडा, ओदांग
				78	714	निजी	बारी	0.03	बंसी दास पुत्र कमलेश दास, विद्याधर दास, विश्वनाथ दास, सपाणी दास पुत्र मोहन दास, ओदांग
				80	717	निजी	घराबरी	0.01	मामुनी बारिक पुत्र दाधी, ओदांग
				71/62	889	निजी	बियाली	0.01	नरोत्तम मलिक पुत्र जोगी मलिक द्विविजा मलिक, हैरी मलिक, सैलबाला मलिक पुत्र एवं पुत्री गोलेखा मलिक, माताजी मलिक पत्नी गोलेखा मलिक, ओदांग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				98	761	निजी	पतीत (हाल)	0.06	महोजिनी मोहापात्रा, रामा मोहापात्रा पुत्री गोविंद मोहापात्रा, मुहुषि मोहापात्रा पत्नी गोविंद मोहापात्रा, अजय मोहापात्रा, विजया मोहापात्रा पुत्र चंद्रशेखर मोहापात्रा, सुकांति मोहापात्रा पत्नी चंद्रशेखर मोहापात्रा, बामादेवपुर
				90/76	743	निजी	घराबरी	0.15	रघुनाथ मोहापात्रा पुत्र गोपीनाथ मोहापात्रा, ओदांग अशोक कुमार मोहापात्रा पुत्र लक्ष्मीधर मोहापात्रा, मनीतिरी
				91/77	716	निजी	बारी	0.01	हरि मलिक पुत्र नारु मलिक, ओदांग
				150/ 12	706	निजी	बियाली	0.01	हाडी मलिक पुत्र मधेई मलिक, ओदांग
				139/1	622	निजी	बिजेस्थली	0.05	श्री अमरेश्वरी ठकुरानी बिजे-ओदांग मार्फत अंतरिम ट्रस्टी, इण्डियन निरिक्षक, जाजपुर
				24	701	निजी	पतीत	0.01	अनंता ओझा पुत्र जगु ओझा, ओदांग
				41	658	निजी	बियाली	0.03	रघु मलिक, जगबन्धु मलिक, निरुपमा मलिक, कानका मलिका पुत्र एवं पुत्री निधि मलिक, ओदांग
				149/11	689	निजी	बियाली	0.08	हरि मलिक पुत्र नारु मलिक, ओदांग
				150/12	660	निजी	बियाली	0.02	हाडी मलिक पुत्र मधेई मलिक, ओदांग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	बाराबाटी	धर्मशाला	धर्मशाला	268	562	निजी	बारी	0.02	रंगा रथ पुत्र कंगाली रथ, बाराबाटी, पी.एस. धर्मशाला
5	सुआनसाही	धर्मशाला	धर्मशाला	383	1716	निजी	सरद-	0.10	सच्चिदानंद साहनी पुत्र परमानंद साहनी, सुआनसाही, पी.एस. धर्मशाला
				432	1978	निजी	सरद-	0.29	सुदर्शन मलिक, केहब मलिक, भास्कर मलिक, मिनाकेतन मलिक पुत्र बाबाजी मलिक, मिखासी मलिक, करुणा मलिक पुत्र वैष्णव मलिक, कनेही मलिक पुत्र भगुनी मलिक, सुआनसाही, पी.एस. धर्मशाला
6	राजेन्द्रपुर	धर्मशाला	धर्मशाला	383	17	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.24	मानस कु. नंदा पुत्र हरिहरा नंदा, घोलापुर
				383	18	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.22	मानस कु. नंदा पुत्र हरिहरा नंदा, घोलापुर
7	चप्पडीपुर	धर्मशाला	धर्मशाला	450	1291	निजी	सरद अंजालेसेचीता।।।	0.02	महेश्वर देवता पुत्र वनमाली देवता, चाँदीपुर
				450	1292	निजी	सरद अंजालेसेचीता।।।	0.02	महेश्वर देवता पुत्र वनमाली देवता, चाँदीपुर
8	ओराली	धर्मशाला	धर्मशाला	110	1391	निजी	पतीता	0.05	केलु पुत्र वैष्णव मलिक, रसूलपुर
				715	1389	सरकारी	गोचर	0.62	रखिता
9	मसूदपुर	कोरई	सुकिंदा	8	1059	निजी	सरद अंजालेसेचीता-।।।	0.01	अनंत दास, अशोक दास पुत्र साखी दास, बैरागी दास पुत्र कामदेव दास, बिलिपडा, पी.एस. धर्मशाला
10	साथीपुर	जाजपुर	जाजपुर	82	955	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.04	गंगाधर परिडा पुत्र विद्याधर परिडा, साथीपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				82	952	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.02	गंगाधर परिडा पुत्र विद्याधर परिडा, साधीपुर
				82	960	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.01	गंगाधर परिडा पुत्र विद्याधर परिडा, साधीपुर
				132	956	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.06	जगबन्धु पाल, मनमोहन पाल, कान्हु चरण पाल, बेनुधर पाल पुत्र शिखर पाल, कै पाल पत्नी शिखर पाल, साधीपुर
				132	954	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.04	जगबन्धु पाल, मनमोहन पाल, कान्हु चरण पाल, बेनुधर पाल पुत्र शिखर पाल, कै पाल पत्नी शिखर पाल, साधीपुर
				132	953	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.02	जगबन्धु पाल, मनमोहन पाल, कान्हु चरण पाल, बेनुधर पाल पुत्र शिखर पाल, कै पाल पत्नी शिखर पाल, साधीपुर
				252	976	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.09	बलराम स्वेन पुत्र धारिंदर खन्देईतरा, साधीपुर
				252	975/ 2578	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.01	बलराम स्वेन पुत्र धारिंदर खन्देईतरा, साधीपुर
				271	949	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.01	बाबोजी दास, साधु दास पुत्र मणि दास, साधीपुर
				308	976/ 2505	निजी	सरद अंजालेसेचीता-	0.04	विश्वनाथ स्वेन पुत्र नीलामणि स्वेन, साधीपुर
				309	948	निजी	सरद अंजालासेचीता-	0.04	विश्वनाथ स्वेन पुत्र नीलामणि स्वेन, हिस्सा 10 आना, दोनबंधु साहू पुत्र अनंता साहू, हिस्सा 6 आना, साधीपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				429	950	निजी	सरद अंजालासेचीता-।	0.02	लक्ष्मीधर बेहरा, नारायण बेहरा पुत्र नबीना बेहरा, गोविंदा चंद्र बेहरा पुत्र एकादशी बेहरा, मगुनी बेहरा, सुदर्शन बेहरा पुत्र नंदा बेहरा, मिति बेहरा पत्नी नंदा बेहरा, साथीपुर
				432	976/ 2507	निजी	सरद अंजालासेचीता-।	0.02	ललिता पात्र पुत्री दीनबंधु स्वेन, साथीपुर
				465	980	निजी	सरद अंजालासेचीता-।	0.19	श्याम सुंदर साह पुत्र भवभूषी साह, मुलापल
				500	951	निजी	सरद अंजालासेचीता-।	0.02	सैधा स्वेन पुत्र जयाराम स्वेन, साथीपुर
				527	981	निजी	गोचरा	0.14	राखिता अनाबादी
जिला-मद्रास									
1	आखुआपड़ा	भंडारी पोखरी	धामनगर	236	583	निजी	जलाशय-।।	0.01	गोपीनाथ साह पुत्र दैतारी साह, आखुआपड़ा
				256	902	निजी	जलाशय-।।	0.01	बल्लभर जेना, हरि जेना पुत्र सिंधु जेना, आखुआपड़ा, गैर कामूनी खरीद के कारण कब्जा, रत्नाकर मंगल, सनातन मंगल, अनम मंगल पुत्र बैसम मंगल, आखुआपड़ा आर.एस.डी. सं. 143 तारीख 08.01.1965 कं.मनी 875/- रुपए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				269	589	निजी	घराबरी	0.04	परीतपावन बेहरा पुत्र जादुनाथ बेहरा, सावित्री बेहरा पत्नी जादुनाथ बेहरा, सखीगोपाल बेहरा, कमलाकांत बेहरा, संतोष कुमाराबेहरा पुत्र साधुमनि बेहरा, पूर्णिमा बेहरा, पत्नी साधुमनि बेहरा, बैधर बेहरा लक्ष्मणी बेहरा, पुत्र और पुत्री गेनेई बेहरा, आखुआपका
				456	590	निजी	घराबरी	0.02	मणि बेहरा पुत्र बिम्बाधर बेहरा, आखुआपका
				533	903	निजी	घराबरी	0.01	हरिहर मंगल, परमेश्वर मंगल पुत्र रत्नाकर मंगल जाहरी मंगल पत्नी रत्नाकर मंगल, चक्रधर मंगल पुत्र सन्तान मंगल, पबानी मंगल पत्नी सन्तान मंगल, केदार मंगल पुत्र धारिदर मंगल, मंजुलता मंगल पत्नी धरनीधर मंगल अनाम मंगल पुत्र भीमा मंगल, आखुआपका
				600	584	निजी	घराबरी	0.03	गोपीनाथ साहू उपेन्द्र साहू पुत्र देतारी साहू आखुआपका
2	नरडा	भंडारी पोखरी	धामनगर	591	3677	निजी	सरद-॥	0.03	बंसीधर दोबई पुत्र वल्लभ दोबई, नरडा
3	रामचन्द्रपुर	भंडारी पोखरी	धामनगर	88	305/ 540	निजी	सरद-॥	0.02	रत्नाकर साहू पुत्र बाबाजी साहू रामचन्द्रपुर
4	बायाबानपुर	भंडारी पोखरी ...	धामनगर	597	584/ 3290	निजी	सरद-॥	0.03	करंभना रौजत पुत्र दुर्वाधन रौजत, बायाबानपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	दखीनाबाद	भंडारी पोखरी	धामनगर	30	1248	निजी	सरद-I	0.11	अहिल्या मोहंती पत्नी निर्मल चंद्रा मोहंती, आरती मोहंती पत्नी प्रफुल्ल चन्द्रा मोहंती, सत्यप्रिया मोहंती पुत्र कृष्णाचन्द्र मोहंती, बेलागाडिया
				296	1256	निजी	घराबरी	0.01	पद्मावती विश्वाल पत्नी रमेश चन्द्र विश्वाल, दखीनाबाद
				534	1193	निजी	पतीता	0.08	रामचन्द्र पांडा, लक्ष्मीधर पांडा पुत्र नाबा किशोर पांडा, चन्द्रभानुपुर
				538	1255	निजी	पतीता	0.01	रुक्मिणी सैजत पत्नी नटवर सैजत, चन्द्रभानुपुर
6	मजूरीगरिया	धामनगर	धामनगर	30	411/913	निजी	सरद जल-II	0.16	गंगाधर सेनापति पुत्र धनश्याम सेनापति, मजूरीगरिया
				56	412	निजी	सरद-III	0.02	जुधिस्तिर सेनापति पुत्र सुकदेव सेनापति रामा जेना उमा जेना, श्याम जेना पुत्र बाबाजी जेना, मजूरीगरिया
				108	444	निजी	सरद-II	0.05	वृंदावन बारीक पुत्र जगबंघु बारीक, मजूरीगरिया
				140/43	411	निजी	सरद जल-III	0.1	पुर्णा चंद्रा साहू पुत्र धनश्याम साहू, सुजीत कुमार साहू, अजीत कुमार साहू पुत्र नरसिंह चरण साहू बहुदरादा
				170	384	निजी	घराबरी	0.25	सुरील कुमार दास पुत्र प्रयाकर दास, मजूरीगरिया
				207	408	सरकारी	कृपा (कुआ)	0.01	सर्वसाधारण
				208	408	सरकारी	गोचर	0.33	राखिता अनाबादी
				210	383	सरकारी	नयनजोरी	0.15	पुर्ता विभाग (आर एण्ड बी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				210	409	सरकारी	पत्तीता	0.07	पुर्ता बिभाग (आर एण्ड बी)
				210	402	सरकारी	नयनजोरी	0.05	पुर्ता बिभाग (आर एण्ड बी)
				210	403	सरकारी	सड़क	0.05	पुर्ता बिभाग (आर एण्ड बी)
				210	404	सरकारी	सड़क	0.07	पुर्ता बिभाग (आर एण्ड बी)
				210	934	सरकारी	नयनजोरी	0.02	पुर्ता बिभाग (आर एण्ड बी)
7	पहीमाहूरा	धामनगर	धामनगर	122	738	निजी	सरद जल-॥	0.05	राजा परिडा पुत्र सागर परिडा, भागवत परिडा, राम परिडा पुत्र राजा किशोर परिडा, पहीमाहूरा
				122	739	निजी	सरद जल-॥	0.04	राजा परिडा पुत्र सागर परिडा, भागवत परिडा, राम परिडा पुत्र राजा किशोर परिडा, पहीमाहूरा
				150	737	सरकारी	पत्तीता	0.48	अबादाजोग्या अनाबादी
8	बाघमरा	धामनगर	धामनगर	6	112	निजी	घराबरी	0.02	कामिनी कंचन बारीक पत्नी नरसिंह बारिक, दलंग
				6	154	निजी	घराबरी	0.04	कामिनी कंचन बारीक पत्नी नरसिंह बारिक, दलंग
				6	155/ 240	निजी	घराबरी	0.04	कामिनी कंचन बारीक पत्नी नरसिंह बारिक, दलंग
				6	160	निजी	घराबरी	0.07	कामिनी कंचन बारीक पत्नी नरसिंह बारिक, दलंग
				6	163	निजी	घराबरी	0.04	कामिनी कंचन बारीक पत्नी नरसिंह बारिक, दलंग
				59/6	160/ 243	निजी	घराबरी	0.02	भगवान बेहरा, जगबधु बेहरा, समरेन्द्र बेहरा पुत्र दैत्री बेहरा, बारापडी
				59/4	155	निजी	घराबरी	0.03	शंकरासन मथिआ, लक्ष्मीधर मथिआ पुत्र वैष्णव मथिआ, कुरुंजी गुमुपुर
				59/7	109/ 249	निजी	घराबरी	0.02	महेश्वर बारीक पुत्र सबन बारीक, बारापडी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				59/21	109	निजी	घराबरी	0.01	नित्यानंद सामल, राधाकंठा सामल पुत्र महेंद्र सामल, हरिहर सामल, पुत्र सुरेंद्र सामल, दीप्तिकांता सामल पुत्र देवेंद्र सामल, बहुदारडा
				63	166	सरकारी	गोचर	0.05	रखिता अनाबादी
				63	191	सरकारी	गोचर	0.02	रखिता अनाबादी
				63	190	सरकारी	सर्वसाधारण जोग्य	0.09	रखिता अनाबादी
				65	192	सरकारी	नाला	0.02	सिंचाई विभाग
				65	165	सरकारी	नाला	0.03	सिंचाई विभाग
9	गोलापुर	भद्रक	भद्रक	724	3167	निजी	सरद-॥	0.08	सुबोध चन्द्र रॉजत, सुनील कुमार रॉजत, सुनीता रॉजत, अनीता रॉजत, सुभाष चन्द्र रॉजत पुत्र दुर्गा चरण रॉजत, टिलोट्टामा रॉजत पत्नी दुर्गा चरण रॉजत, हरि रॉजत पुत्र आपर्ति चरण रॉजत, भामा रॉजत, रामा रॉजत, सुकुटी रॉजत रॉजत के पुत्र एवं पुत्री, पंचानन पितेई रॉजत पत्नी खेत्रामणि रॉजत, गोलापुर
2	समराईपुर	भद्रक	भद्रक	134	1423	निजी	सरद-॥	0.06	इंदिरामणि मोहंती पत्नी जादुनाथ मोहंती, किशोर चन्द्रा मोहंती, नबीन किशोर मोहंती पुत्र जन्मेजय मोहंती, बांका
				146	1419	निजी	घराबरी	0.02	उच्छव चरण लैंका पुत्र बंजानिधि लैंका, लांगुडी
				170	1417/ 2646	निजी	सरद-॥	0.02	कमलाकांत नायक पुत्र गोविंदा चंद्रा नायक, राधामोहन परिडा, सुरेंद्र परिडा, रविंद्र परिडा पुत्र केलु चरण परिडा, समराईपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				170 (821/ 572)	1417/ 2647	निजी	सरद-॥	0.02	स्नेहलता परिडा पत्नी सीताराम परिडा, राजपुर
				216	775	निजी	सरद-॥	0.07	कैशव चंद्रापांडा पुत्र जगबन्धु पांडा, रघुनाथ पांडा पुत्र दशरथ पांडा, बाँका
				398	1105	निजी	सरद-॥	0.01	निशेदा कुमार दास पुत्र कृष्ण प्रसाद दास, बाँका
				562 (821/ 2305)	1118	निजी	घराबरी	0.02	मुक्तिकान्त लैंका पुत्र उधाबा चरण लैंका, समरसईपुर
				567	1086	निजी	सरद-॥	0.03	मानन खान, हानन खान, फातिमा बीबी पुत्र/पुत्री मोहम्मद चाँद खान, क़सिदा बीबी पुत्र चाँद खान रसिया बीबी पुत्री कबीर खान, हानन खान, हेदातुन नेसा बीबी पुत्र/पुत्री करीम खान रुस्तम खान, राजी बीबी पुत्र/पुत्री समसेर खान, अपार्तिबिन्धा
				652	1421	निजी	सरद-॥	0.09	स्नेहलता परिडा पत्नी सीताराम परिडा, राजपुर
				778	1119/ 2549	निजी	सरद-॥	0.02	हरिबन्धु बारीक पुत्र निधिराम बारीक, हरीपुर
10	जगन्नाथपुर	भद्रक	भद्रक	197	805	निजी	सरद-॥	0.105	विश्वमोहन दास पुत्र गोकुल बिहारी दास, जगन्नाथपुर
				197	804	निजी	सरद-॥	0.02	विश्वमोहन दास पुत्र गोकुल बिहारी दास, जगन्नाथपुर
				197	803	निजी	पत्नीता	0.015	विश्वमोहन दास पुत्र गोकुल बिहारी दास, जगन्नाथपुर
				349	531	निजी	सरद-॥	0.085	रामहरि मोहंती, नंद किशोर मोहंती पुत्र भोलानाथ मोहंती, जगन्नाथपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				349	532	निजी	पतीता	0.06	रामहरि मोहंती, नंद किशोर मोहंती पुत्र भोलानाथ मोहंती, जगन्नाथपुर
				349	531/ 950	निजी	पतीता	0.06	रामहरि मोहंती, नंद किशोर मोहंती पुत्र भोलानाथ मोहंती, जगन्नाथपुर
				351	805/ 880	निजी	सरद-॥	0.033	रहसा बिहारी मोहंती, सरत चौ. मोहंती पुत्र ब्रह्मानंद मोहंती, जगन्नाथपुर
11	मथासाही	भद्रक	भद्रक	44	1589	निजी	घराबरी	0.01	प्रह्लाद सेठी पुत्र रामा सेठी, मथासाही
				805	1611	निजी	घराबरी	0.01	राममणि दास पुत्री गोपाल चन्द दास, पुर्णा चंद मोहापात्रा पुत्र गणेश प्रसाद मोहापात्रा, कुआंसा
				776/ 595	1621/ 2765	निजी	घराबरी	0.01	गोलाखा चंद्र रौकत पुत्र भागवन रौकत, जहाँगीर, पी.एस. धामनगर
				776/ 183	1621/ 2764	निजी	घराबरी	0.005	लबांगा मंजारी मोहंती पत्नी सृष्टिदास मोहंती, मथासाही
12	बरलपोखरी	भद्रक	भद्रक	74	4652/51 14	निजी	घराबरी	0.002	शेख अजमेर अली पुत्र शेख मकबूल, शंकरपुर
				89	4652/51 21	निजी	घराबरी	0.023	अनंतचरण पलई, नरसिंह चरण पलई पुत्र बैरागी चरण पलई
				104	4652/51 12	निजी	घराबरी	0.002	अहल्या कुमारी मिश्रा पत्नी प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, बरलपोखरी
				129	4652	निजी	सरद-॥	0.05	शेख इसा पुत्र शेख कालिमुद्दीन, शंकरपुर
				129	4792	निजी	सरद-॥	0.01	शेख इसा पुत्र शेख कालिमुद्दीन, शंकरपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				130	4652/50 53	निजी	घराबरी	0.003	मोहम्मद इसा पुत्र मोहम्मद इस्माइल, बरलपोखरी
				336	4652/49 99	निजी	घराबरी	0.02	घमेली मल्ला पत्नी ओंकार मल्ला, गेलुनी गुप्ता पत्नी रामदेव गुप्ता, चंदन बाजार
				354	4652/49 98	निजी	घराबरी	0.005	छगनलाल भातर पुत्र हरिदेव भातर चरम्पा
				1016	4652/49 07	निजी	घराबरी	0.005	सुभाषिनी मिश्रा पत्नी प्रफुल्ल कुमार, बरलपोखरी
				1174/ 86	4652/51 13	निजी	घराबरी	0.002	सोयन खान पुत्र राजू खान, चौबिया महला
				1174/ 107	4652/51 31	निजी	घराबरी	0.025	सचिकॉत रॉज्जाराय पुत्र हरेकृष्ण रॉज्जाराय, मरकंदापुर
				1174/ 209	4652/51 09	निजी	सरद-I	0.008	घमेली मल्ला पत्नी ओंकार मल्ला, गेलुनी गुप्ता पत्नी रामदेव गुप्ता, चंदन बाजार
13	कंतापाल	भद्रक	भद्रक	7	81	निजी	घराबरी	0.01	आशालता मिश्रा पत्नी पूर्णा चौ. मिश्रा, बरलपोखरी
				185/ 162	79/ 619	निजी	सरद-I	0.01	आशालता मिश्रा पत्नी पूर्णा चौ. मिश्रा, बरलपोखरी
				185/ 162	79/ 398/ 620	निजी	घराबरी	0.01	आशालता मिश्रा पत्नी पूर्णा चौ. मिश्रा, बरलपोखरी
				10	78	निजी	घराबरी	0.01	रविन्द्र बारीक पुत्र जोगेंद्र बारीक, बहुदारदा
				140	5	निजी	घराबरी	0.14	राजकुमार खेमका पुत्र सुखदेव खेमका सराफपुर
				106	429	निजी	सरद-II	0.09	वीरभद्रा चटर पुत्र किनु चटर, भोलानाथ चटर पुत्र दामा चटर, नीलमणि चटर पुत्र श्रीधर चटर, बरलपोखरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				184/ 134	17	निजी	सरद-11	0.04	रमादेवी गुप्ता पत्नी भोलाराम गुप्ता, बरलपोखरी
14	चरम्या	भद्रक	भद्रक	400	2143	निजी	आदि	0.04	पुरुषोत्तम पांडा पुत्र भास्कर पांडा, कंतापाल
				401	2142	निजी	आदि	0.07	पुरुषोत्तम पांडा पुत्र भास्कर पांडा शांतिलता पांडा पत्नी पुरुषोत्तम पांडा, कंतापाल
				716	2144	निजी	घराबरी	0.02	श्याम दास पुत्र गोपी दास, चरम्या
				816	2150	सरकारी	पानी का नाला	0.04	अबादा जोग्या अनाबादी
15	एरई	भद्रक	भद्रक	11	59	निजी	चका	0.03	मंजूरानी गुप्ता पत्नी निरंजनलाल गुप्ता, शंकरपुर
				74	88	निजी	चका	0.18	अशोक कुमार गुप्ता पुत्र राम अवतार गुप्ता, चरम्या
				167	75	निजी	चका	0.04	कालंदी चरण विश्वाल पुत्र दयानिधि विश्वाल, बरलपोखरी
				282	70	निजी	चका	0.06	गणेश प्रसाद भोई, परसुराम भोई पुत्र मगुनि भोई, एरई
				300	100	निजी	घराबरी	0.12	गोपाबन्धु बेहरा, गोलेखा बेहरा पुत्र मणिराम बेहरा, एरई
				380	81	निजी	चका	0.07	जादि रंजित पत्नी वृंदावन रंजित, विद्याधर रंजित पुत्र वृंदावन रंजित, बरलपोखरी
				418	60	निजी	चका	0.03	दामोदर प्रसाद गुप्ता पुत्र बट्टी प्रसाद गुप्ता, चंदन बाजार
				429	81	निजी	चका	0.03	दुर्गा दत्त अग्रवाल पुत्र गुंलजारीलाल अग्रवाल, बरलपोखरी
				429	78	निजी	चका	0.07	दुर्गा दत्त अग्रवाल पुत्र गुंलजारीलाल अग्रवाल, बरलपोखरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				469	69	निजी	सरद जल-॥	0.08	धुवाचरण भोई पुत्र गणेश चन्द्र भोई, अचाका, पी.एस. टिहडी
				556	66	निजी	सरद जलदोफसल-॥	0.06	परसुराम भोई, गणेश भोई पुत्र मगुनी भोई, दामोदर भोई पुत्र गणेश भोई, राममणि भोई पत्नी गणेश भोई, अचाका, पी.एस. टिहडी
				675	74	निजी	चका	0.02	बाबाजी चरण दास, पुत्र सनातन दास, बरलपोखरी
				1049	58	निजी	चका	0.04	राम करण अग्रवाल पुत्र दुर्गादत्त अग्रवाल, बरलपोखरी
				1087	98	निजी	कारखाना	0.01	लक्ष्मीधर नायक पुत्र मुरलीधर नायक, एरई
				1068	99	निजी	कारखाना	0.01	लक्ष्मीधर नायक पुत्र मुरलीधर नायक, स्नेहलता नायक पत्नी लक्ष्मीधर नायक, एरई
				1173	82	निजी	चका	0.01	साधु चरण दास पुत्र निसाकर दास, बरलपोखरी
				1192	87	निजी	चका	0.14	श्यामसुंदर मोहंती पुत्र निसाकर मोहंती, कंतापाल
				1192	89	निजी	चका	0.08	श्यामसुंदर मोहंती पुत्र निसाकर मोहंती, कंतापाल
				1351	62	सरकारी	निरकासन नाली	0.02	रखिता अनाबादी
				1351	88	सरकारी	शाखा नाली	0.01	रखिता अनाबादी
16	रनजा	भद्रक	भद्रक	874	3393	निजी	घराबरी	0.03	श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु बिजे पुरी मोर्फत राजगोपाल रामानुजा दास गुरु महंता श्रीनिवास रामानुजा दास, कालिकादेवी साही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				874	3394	निजी	घराबरी	0.03	श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु बिजे पुरी मार्फत राजगोपाल रामानुजा दास गुरु महंता श्रीनिवास रामानुजा दास, कालिकादेवी साही
				874	3395	निजी	पतीता	0.06	श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु बिजे पुरी मार्फत राजगोपाल रामानुजा दास गुरु महंता श्रीनिवास रामानुजा दास, कालिकादेवी साही
				874	3396	निजी	घराबरी	0.02	श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु बिजे पुरी मार्फत राजगोपाल रामानुजा दास गुरु महंता श्रीनिवास रामानुजा दास, कालिकादेवी साही
				874	3397	निजी	घराबरी	0.01	श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु बिजे पुरी मार्फत राजगोपाल रामानुजा दास गुरु महंता श्रीनिवास रामानुजा दास, कालिकादेवी साही
				873	3402	निजी	पतीता	0.15	अमृतमोहनी श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु बिजे पुरी मार्फत महंत राजगोपाल रामानुजा दास गुरु महंता रामानुजा दास, कालिकादेवी साही, पुरी

[फा. सं. भाराप्र/11014/3ए(1)/2005/ओआर-II/तक/म.प्र. (सीके-II)/एलए-121]

प्रभाकर, उप-सचिव

49662/106-8

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2006

S.O. 244(R).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways, number S.O. 1285(E), dated the 13th September, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building, maintenance, management and operation of National Highway No.5, from Km. 61.00 to Km. 136.500 (Bhubaneswar-Kolkata Section) in the State of Orissa.

And whereas, the substance of the said notification was published in "Samaya" dated the 30th October 2005 and in "Pragatibadi, dated the 30th October 2005;

And whereas objections have been received from the persons interested in the land the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (3) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in A1 the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Land to be acquired for building (widening) of National Highway No-5 on the stretch of land from Km. 61.00 to Km. 136.500
(Bhubaneswar-Kolkata Section) in the State of Orissa

serial number	Name of the village	Police Station	Tahasil	Khata No.	Plot No.	Type of land	Nature of land	Area of land (in acres)	Name of the owner/ other interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
District-Jajpur									
1	Sunguda	Badachana	Darpan	721	1305	Private	Sarad-III	0.03	Sabitri Kar w/o Prafulla Kar, Pramod Kar s/o Bidyadhar Kar of Kanchia P.S.-Dharmasala
				354	1302	Private	Sarad-III	0.03	Niroda Kumar Nayak s/o Krupasindhu Nayak of Alijanga P.S.Barachana
				677	1301	Private	Sarad-III	0.07	Sailendra Kumar Nayak, Manindra Nayak, Amarendra Nayak s/o Nirod Kumar Nayak of Alijanga P.S.Barachana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				807	1317	Govt.	Gramya Jungle	0.07	Rakhit Anabadi
2	Balibiri	Dharmasala	Dharmasala	90	131	Govt.	Gochar	0.16	Rakhit Anabadi
3	Odang	Dharmasala	Dharmasala	27	760	Private	Patit (Hata)	0.04	Ananda Khuntia S/o Rama Khuntia, Braja Khuntia S/o Danei Khuntia of Odanga P.S. Dharmasala
				30	768	Private	Gharabari	0.01	Akura Das, Kanaka Das, Gouri Das S/o Bhaban Das, Poka Das W/o Bhaban Das, Arun Das, Sujata Das S/D/o Fakira Das, Durgabati Das W/o Fakira Das of Odanga
				36	626	Private	Biali	0.09	Suresh Panda S/o Hari Panda, Trailokya Panda S/o Punananda Panda, Rudra Charan Panda, Sheshadev Panda S/o Dhani Panda, Benudhar Das, Jayanti Das S/D/o Damodara Das, Bharati Panda W/o Bhima Panda, Sehati Panda, Malati Panda S/D/o Banamali Panda, Suresh Pati S/o Narayan Pati of Odanga
				41	683	Private	Biali	0.02	Raghu Mallik, Jagabandhu Mallik, Nirupama Mallik, Kanaka Mallik Son & D/o Nidhi Mallik of Odanga
				52	767	Private	Gharabari	0.13	Gaji Parida, Sikhara Parida, Sudhira Parida, Baidhar Parida S/o Bhobani Parida of Odanga
				52	769	Private	Gharahari	0.05	Gaji Parida, Sikhara Parida, Sudhira Parida, Baidhar Parida S/o Bhobani Parida of Odanga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				78	714	Private	Bari	0.03	Bauri Das s/o Kanhei Das, Bidyadhar Das, Biswanath Das, Sapani Das S/o Mohani Das of Odanga
				80	717	Private	Gharabari	0.01	Maguni Barik S/o Dadhi of Odanga
				71/52	669	Private	Biali	0.01	Narottam Mallik S/o Jogi Mallik, Dwija Mallik, Hari Mallik, Sailabala Mallik Son and daughter of Golekha Mallik, Mataji Mallik W/o Golekha Mallik of Odanga
				98	761	Private	Patit (Hata)	0.06	Sarojini Mohapatra, Rama Mohapatra D/o Gobinda Mohapatra, Gunduchi Mohapatra W/o Gobinda Mohapatra, Ajaya Mohapatra, Bijaya Mohapatra S/o Chandrasekhar Mohapatra, Sukanti Mohapatra w/o Chandrasekhar Mohapatra of Bamadevpur
				90/76	743	Private	Gharabari	0.15	Raghunath Mohapatra S/o Gopinath Mohapatra of Odanga, Ashok Kumar Mohapatra S/o Laxmidhar Mohapatra of Manitiri
				91/77	716	Private	Bari	0.01	Hari Mallik S/o Naru Mallik of Odanga
				150/12	706	Private	Biali	0.01	Hadi Mallik s/o Madhei Mallik of Odanga
				139/1	622	Private	Bijesthali	0.05	Sri Angeswari Thakurani Bije-Odanga Marfat Interim Trustee, Inspector of Endowment, Jajpur
				24	701	Private	Patit	0.01	Aananta Ojha S/o Jagu Ojha of Odanga.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				41	658	Private	Biali	0.03	Raghu Mallik, Jagabandhu Mallik, Nirupama Mallik, Kanaka Mallik Son & D/o Nidhi Mallik of Odanga
				149/11	659	Private	Biali	0.08	Hari Mallik S/o Naru Mallik of Odanga
				150/12	660	Private	Biali	0.02	Hadi Mallik s/o Madhei Mallik of Odanga
4	Barabati	Dharmasala	Dharmasala	268	562	Private	Bari	0.02	Ranga Rath s/o Kangali Rath of Barabati P.S.- Dharmasala
5	Suansahi	Dharmasala	Dharmasala	383	1716	Private	Sarad-I	0.10	Sachidananda Sahani s/o Premananda Sahani of Suansahi P.S. Dharmasala
				432	1978	Private	Sarad-I	0.29	Sudarsan Mallick, Keshab Mallick, Bhaskar Mallick, Minaketan Mallick s/o Babaji Mallick, Bhikari Mallick, Krushna Mallick s/o Baishnab Mallick, Kanchei Mallick s/o Maguni Mallick of Suansahi P.S. Dharmasala
6	Rajendrapur	Dharmasala	Dharmasala	383	17	Private	Sarad Anajalasechi ta-I	0.24	Manas Ku. Nanda S/o Harihara Nanda of Gholapur
				383	18	Private	Sarad Anajalasechi ta-I	0.22	Manas Ku. Nanda S/o Harihara Nanda of Gholapur
7	Chandipur	Dharmasala	Dharmasala	450	1291	Private	Sarad Anajalasechi ta III	0.02	Maheswar Debata S/o Banamali Debata of Chandipur
				450	1292	Private	Sarad Anajalasechi ta III	0.02	Maheswar Debata S/o Banamali Debata of Chandipur
8	Orali	Dharmasala	Dharmasala	110	1391	Private	Patita	0.05	Kelu Malik S/o Baishnab Malik of Rasulpur
				715	1389	Govt.	Gochar	0.62	Rakhita

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Masudpur	Korei	Sukinda	8	1059	Private	Sarad Anajalasechita-III	0.01	Anant Das, Ashok Das s/o Sachi Das, Bairagi Das s/o Kamadev Das of Bilipada P.S. Dharmasdala
10	Sathipur	Jajpur	Jajpur	82	955	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.04	Gangadhar Parida s/o Bidyadhar Parida of Sathipur
				82	952	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.02	Gangadhar Parida s/o Bidyadhar Parida of Sathipur
				82	960	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.01	Gangadhar Parida s/o Bidyadhar Parida of Sathipur
				132	956	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.06	Jagabandhu Pal, Manmohan Pal, Kanhu Charan Pal, Benudhar Pal s/o Sikhar Pal, Kai Pal w/o Sikhar Pal of Sathipur
				132	954	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.04	Jagabandhu Pal, Manmohan Pal, Kanhu Charan Pal, Benudhar Pal s/o Sikhar Pal, Kai Pal w/o Sikhar Pal of Sathipur
				132	953	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.02	Jagabandhu Pal, Manmohan Pal, Kanhu Charan Pal, Benudhar Pal s/o Sikhar Pal, Kai Pal w/o Sikhar Pal of Sathipur
				252	976	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.09	Balaram Swain s/o Dharanidhar Khandaitara of Sathipur
				252	975/2578	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.01	Balaram Swain s/o Dharanidhar Khandaitara of Sathipur
				271	949	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.01	Babaji Das, Sadhu Das s/o Mani Das of Sathipur
				308	976/2505	Private	Sarad Anajalasechita-I	0.04	Biswanath Swain s/o Nilamani Swain of Sathipur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				309	948	Private	Sarad Anajalasechi ta-I	0.04	Biswanath Swain s/o Nilamani Swain share 10 anas, Dinabandhu Sahu s/o Ananta Sahu share 6 anas of Sathipur.
				429	950	Private	Sarad Anajalasechi ta-I	0.02	Laxmidhar Behera, Narayan Behera s/o Nabina Behera, Govinda Chandra Behera s/o Ekadasi Behera, Maguni Behera, Sudarsan Behera s/o Nanda Behera, Miti Behera w/o Nanda Behera of Sathipur
				432	976/2507	Private	Sarad Anajalasechi ta-I	0.02	Lalita Patra D/o Dinanabandhu Swain of Sathipur
				465	980	Private	Sarad Anajalasechi ta-I	0.19	Shyam Sundar Sahoo S/o Bhabagrahi Sahoo of Mulapal
				500	951	Private	Sarad Anajalasechi ta-I	0.02	Sendha Swain S/o Jayaram Swain of Sathipur
				527	981	Private	Gochara	0.14	Rakhit Anabadi
District-Bhadrak									
1	Akhuapada	Bhandari Pokhari	Dhamanagar	236	583	Private	Jalasay-II	0.01	Gopinath Sahoo s/o Daitari Sahoo of Akhuapada
				256	902	Private	Jalasay-II	0.01	Chakradhar Jena, Hari Jena s/o Sindhu Jena of Akhuapada possession through illegal purchase Ratnakar Mangal, Sanatan Mangal, Anam Mangal s/o Baisham Mangal of Akhuapada R.S.D. No.143 dated 08.01.1965 Cons. Money Rs.875/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				269	589	Private	Gharabari	0.04	Patitpaban Behera s/o Jadunath Behera , Sabitri Behera w/o Jadunath Behera, Sakhigopal Behera, Kamalakant Behera , Santosh Kumar Behera s/o Sadhumani Behera , Purnima Behera w/o Sadhumani Behera, Baidhar Behera, Rukmini Behera son and daughter of Gunei Behera of Akhuapada
				456	590	Private	Gharabari	0.02	Mani Behera s/o Bimbadhar Behera of Akhuapada
				533	903	Private	Gharabari	0.01	Harihar Mangal , Parameswar Mangal s/o Ratnakar Mangal Jahari Mangal w/o Ratnakar Mangal, Chakradhar Mangal s/o Sanatan Mangal, Pabani Mangal w/o Sanatan Mangal, Kedar Mangal s/o Dharanidhar Mangal, Manjulata Mangal w/o Dharanidhar Mangal , Anam Mangal s/o Bhima Mangal of Akhuapada
				600	584	Private	Gharabari	0.03	Gopinath Sahoo, Upendra Sahoo s/o Daitari Sahoo of Akhuapada
2	Nereda	Bhandari Pokhari	Dhamanagar	591	3677	Private	Sarad-II	0.03	Bansidhar Dobei s/o Ballav Dobei of Nereda
3	Ramachandra- pur	Bhandari Pokhari	Dhamanagar	88	305/ 540	Private	Sarad-II	0.02	Ratnakar Sahoo s/o Babaji Sahoo of Ramachandrapur
4	Bayan-banpur	Bhandari Pokhari	Dhamanagar	597	584/ 3290	Private	Sarad-II	0.03	Krunshna Rout S/o Duryodhan Rout of Bayanbanpur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Dakhina-bad	Bhandari Pokhari	Dhamanagar	30	1248	Private	Sarad-I	0.11	Ahalya Mohanty w/o Nirmal Chandra Mohanty, Arati Mohanty w/o Prafulla Chandra Mohanty, Satyapriya Mohanty s/o Krushna Chandra Mohanty of Belagadia
				296	1256	Private	Gharabari	0.01	Padmabati Biswal w/o Ramesh Chandra Biswal of Dakhinabad
				534	1193	Private	Patita	0.08	Ramachandra Panda , Laxmidhar Panda s/o Naba Kishore Panda of Chandrabhanupur
				538	1255	Private	Patita	0.01	Rukmini Rout W/o Natabar Rout of Chandrabhanupur
6	Majurigaria	Dhamanagar	Dhamanagar	30	411/913	Private	Sarad Jal-II	0.16	Gangadhar Senapati S/o Ghanashyam Senapati of Majurigadia
				56	412	Private	Sarad-III	0.02	Judhisthir Senapati s/o Sukadev Senapati, Rama Jena Uma Jena , Shyam Jena s/o Babaji Jena of Majuri gadia
				108	444	Private	Sarad-II	0.05	Brundaban Barik s/o Jagabandhu Barik of Majuri gadia
				140/43	411	Private	Sarad Jal-III	0.1	Purna Chandra Sahoo S/o Ghanashyam Sahoo, Sujit Kumar Sahoo, Ajit Kumar Sahoo S/o Narasingh Charan Sahoo of Bahudarada
				170	384	Private	Gharabari	0.25	Sushil Kumar Das S/o Pravakar Das of Majuri gadia
				207	408	Govt.	Kupa (Well)	0.01	Sarbasadharan
				208	406	Govt.	Gochar	0.33	Rakhita Anabadi
				210	383	Govt.	Nayanjori	0.15	Purta Bibhag (R&B)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				210	409	Govt.	Patita	0.07	Purta Bibhag (R&B)
				210	402	Govt.	Nayanjori	0.05	Purta Bibhag (R&B)
				210	403	Govt.	Sadaka	0.05	Purta Bibhag (R&B)
				210	404	Govt.	Sadaka	0.07	Purta Bibhag (R&B)
				210	934	Govt.	Nayanjori	0.02	Purta Bibhag (R&B)
7	Pahimahura	Dhamanagar	Dhamanagar	122	738	Private	Sarad Jal-II	0.05	Raja Parida S/o Sagar Parida, Bhagabat Parida, Rama Parida S/o Raja Kishore Parida of Pahi Mahura
				122	739	Private	Sarad Jal-II	0.04	Raja Parida s/o Sagar Parida, Bhagabat Parida, Rama Parida S/o Raja Kishore Parida of Pahi Mahura
				150	737	Govt.	Patita	0.48	Abadajogya Anabadi
8	Baghamara	Dhamanagar	Dhamanagar	6	112	Private	Gharabari	0.02	Kamini Kanchan Barik w/o Nrusigh Barik of Dalang
				6	154	Private	Gharabari	0.04	Kamini Kanchan Barik w/o Nrusigh Barik of Dalang
				6	155/240	Private	Gharabari	0.04	Kamini Kanchan Barik w/o Nrusigh Barik of Dalang
				6	160	Private	Gharabari	0.07	Kamini Kanchan Barik w/o Nrusigh Barik of Dalang
				6	163	Private	Gharabari	0.04	Kamini Kanchan Barik w/o Nrusigh Barik of Dalang
				59/6	160/243	Private	Gharabari	0.02	Bhagaban Behera, Jagabandhu Behera, Samarendra Behera s/o Daitari Behera of Barapadi
				59/4	155	Private	Gharabari	0.03	Sankarasan Mathia, Laxmidhar Mathia s/o Baishnab Mathia of Kurunji Gunupur
				59/7	109/249	Private	Gharabari	0.02	Maheswar Barik S/o Saban Bvarik of Barapadi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				59/21	109	Private	Gharabari	0.01	Nityananda Samal, Radhakanta Samal s/o Mahendra Samal, Harihar Samal s/o Surendra Samal, Diptikanta Samal s/o Debendra Samal of Bahudarada
				63	166	Govt.	Gochar	0.05	Rakhita Anabadi
				63	191	Govt.	Gochar	0.02	Rakhita Anabadi
				63	190	Govt.	Sarbasdhara n Jogya	0.09	Rakhita Anabadi
				65	192	Govt.	Nala	0.02	Irrigation Deptt.
				65	165	Govt.	Nala	0.03	Irrigation Deptt.
9	Gelpur	Bhadrak	Bhadrak	724	3167	Private	Sarad-II	0.08	Subodh Chandra Rout, Sunil Kumar Rout, Sunita Rout, Anita Rout, Subash Chandra Rout S/o Durga Charan Rout, Tilottama Rout w/o Durga Charan Rout, Hari Rout S/o Aparti Charan Rout, Bhama Rout, Rama Rout Sukuti Rout sons and daughters of Panchanan Rout, Pitei Rout w/o Khetramani Rout of Gelpur
2	Samaraepur	Bhadrak	Bhadrak	134	1423	Private	Sarad-I	0.06	Indramani Mohanti w/o Jadunath Mohanti, Kishore chandra Mohanti, Nabin Kishore Mohanti s/o Janmejay Mohanti of Bonka
				146	1419	Private	Gharabari	0.02	Uchhab Charan Lenka s/o Banchhanidhi Lenka of Langudi
				170	1417/2646	Private	Sarad-II	0.02	Kamalakanta Nayak s/o Govinda Chandra Nayak, Radhamohan Parida, Surendra Parida, Rabindra Parida s/o Kelu Charan Parida of Samaraepur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				170 (821/ 572)	1417/ 2647	Private	Sarad-II	0.02	Snehalata Parida W/o Sitaram Parida of Rajpur
				216	775	Private	Sarad-II	0.07	Keshab ChandraPanda S/o Jagabandhu Panda, Raghunath Panda S/o Dasaratha Panda of Banka
				398	1105	Private	Sarad-II	0.01	Niroda Kumar Das s/o Krushna Prasad Das of Bonka
				562 (821/ 2305)	1118	Private	Gharabari	0.02	Muktikanta Lenka S/o Udhaba Charan Lenka of Samaraepur.
				567	1086	Private	Sarad-II	0.03	Manan Khan, Hanan Khan, Fatima Bibi S/D/o Md. Chand Khan, Kasida Bibi S/o Chand Khan, Rasia Bibi D/o Kabir Khan, Hanan Khan, Hedatun Nesa Bibi S/D/o Karim Khan, Rustam Khan, Raji Bibi S/D/o Sumser Khan of Apartibindha
				652	1421	Private	Sarad-II	0.09	Snehalata Parida W/o Sitaram Parida of Rajapur
				778	1119/ 2549	Private	Sarad-II	0.02	Haribandhu Barik s/o Nidhiram Barik of Haripur
10	Jaganath pur	Bhadrak	Bhadrak	197	805	Private	Sarad-II	0.105	Biswamohan Das S/o Gokul Bihari Das of Jagannathpur
				197	804	Private	Sarad-II	0.02	Biswamohan Das S/o Gokul Bihari Das of Jagannathpur
				197	803	Private	Patita	0.015	Biswamohan Das S/o Gokul Bihari Das of Jagannathpur
				349	531	Private	Sarad-I	0.085	Ramahari Mohanty , Nanda kishore Mohanty S/o Bholanath Mohanty of Jagannathpur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				349	532	Private	Patita	0.06	Ramahari Mohanty , Nanda kishore Mohanty S/o Bholanath Mohanty of Jagannathpur
				349	531/ 950	Private	Patita	0.06	Ramahari Mohanty , Nanda kishore Mohanty S/o Bholanath Mohanty of Jagannathpur
				351	805/ 880	Private	Sarad-II	0.033	Rahasa Bihari Mohanty, Sarat Ch. Mohanty S/o Bramhananda Mohanty of Jagannathpur
11	Mathasahi	Bhadrak	Bhadrak	44	1589	Private	Gharabari	0.01	Prahalad Sethi S/o Rama Sethi of Mathasahi
				805	1611	Private	Gharabari	0.01	Ramamani Das D/o Gopal Chandra Das, Purna Chandra Mohapatra S/o Ganesh Prasad Mohapatra of Kuansa
				776/ 595	1621/ 2765	Private	Gharabari	0.01	Golakha Chandra Rout S/o Bhagaban Rout of Bhadrangir, P.S.-Dhamnagar
				776/ 183	1621/ 2764	Private	Gharabari	0.002	Labanga Manjari Mohanty W/o Srustidhara Mohanty of Mathasahi
12	Baral-pokhari	Bhadrak	Bhadrak	74	4652/51 14	Private	Gharabari	0.002	Sk. Ajmar Ali S/o Sk. Ataquebul of Sankarpur
				89	4652/51 21	Private	Gharabari	0.003	Ananta Charan Palai, Nrusingha Charan Palai S/o Bairagi Charan Palai
				104	4652/51 12	Private	Gharabari	0.002	Ahalya Kumari Mishra W/o Prafulla Kumar Mishra of Baralpokhari
				129	4652	Private	Sarad-I	0.05	Sk. Issa S/o Sk. Kalimuddin of Sankarpur
				129	4792	Private	Sarad-I	0.01	Sk. Issa S/o Sk. Kalimuddin of Sankarpur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				130	4652/50 53	Private	Gharabari	0.003	Md. Issa S/o Md. Ismail of Baralpokhari
				336	4652/49 99	Private	Gharabari	0.02	Chamelli Malla W/o Onkar Malla, Geluni Gupta W/o Ramdev Gupta of Chandan Bazar
				354	4652/49 98	Private	Gharabari	0.005	Chhaganlal Bhattar S/o Harideo Bhattar of Charampa
				1015	4652/49 07	Private	Gharabari	0.005	Subhasini Mishra W/o Prafulla Kumar Mishra of Baralpokhari
				1174/ 86	4652/51 13	Private	Gharabari	0.002	Sovan Khan S/o Raju Khan of Chaubiya Mahala
				1174/ 107	4652/51 31	Private	Gharabari	0.025	Sachikanta Routray S/o Harekrushna Routray of Markandapur
				1174/ 209	4652/51 09	Private	Sarad-I	0.008	Chamelli Malla W/o Onkar Malla, Geluni Gupta W/o Ramdev Gupta of Chandan Bazar
13	Kantapal	Bhadrak	Bhadrak	7	81	Private	Gharabari	0.01	Ashalata Mishra W/o Purna Ch Mishra of Baralpokhari
				185/ 162	79/ 619	Private	Sarad-I	0.01	Ashalata Mishra W/o Purna Ch Mishra of Baralpokhari
				185/ 162	79/ 398/ 620	Private	Gharabari	0.01	Ashalata Mishra W/o Purna Ch Mishra of Baralpokhari
				10	78	Private	Gharabari	0.01	Rabindra Barik s/o Jogendra Barik of Bahudarada
				140	5	Private	Gharabari	0.14	Rajkumar Khemka S/o Sukadev Khemka Sarafpur
				106	429	Private	Sarad-II	0.09	Blrabhadra Chutar S/o Kinu Chutar, Bholanath Chutar S/o Dama Chutar, Nilamani Chutar S/o Shridhar Chutar of Baralpokhari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				184/ 134	17	Private	Sarad-II	0.04	Ramadevi Gupta W/o Bholaram Gupta of Baralpokhari
14	Charampa	Bhadrak	Bhadrak	400	2143	Private	Adi	0.04	Purusottam Panda S/o Bhaskar Panda of Kantapal
				401	2142	Private	Adi	0.07	Purusottam Panda S/o Bhaskar Panda, Shantilata Panda W/o Purusottam Panda of Kantapala
				716	2144	Private	Gharabari	0.02	Shyam Das S/o Gopi Das of Charampa
				816	2150	Govt.	Pani Nala	0.04	Abada Yogya Anabadi
15	Erei	Bhadrak	Bhadrak	11	59	Private	Chaka	0.03	Manjurani Gupta W/o Niranjnlal Gupta of Sankarpur
				74	66	Private	Chaka	0.18	Ashok Kumar Gupta S/o Ram Avtar Gupta of Charampa
				167	75	Private	Chaka	0.04	Kalandi Charan Biswal S/o Dayanidhi Biswal of Baralpokhari
				262	70	Private	Chaka	0.06	Ganesh Prasad Bhoi, Parsuram Bhoi S/o Maguni Bhoi of Erei
				300	100	Private	Gharabari	0.12	Gopabandhu Behera, Golekha Behera S/o Maniram Behera of Erei
				380	61	Private	Chaka	0.07	Jadi Rout W/o Brundaban Rout, Bidyadhar Rout S/o Brundaban Rout of Baralpokhari
				418	60	Private	Chaka	0.03	Damodar Prasad Gupta S/o Badri Prasad Gupta of Chandan Bazar
				429	81	Private	Chaka	0.03	Durga Dutta Agrawal S/o Gulzarilal Agrawal of Baralpokhari
				429	76	Private	Chaka	0.07	Durga Dutta Agrawal S/o Gulzarilal Agrawal of Baralpokhari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				469	69	Private	Sarad Jal-II	0.08	Dhruba Charan Bhoi s/o Ganesh Chandra Bhoi of Achaka, P.S. Tihidi.
				556	68	Private	Sarad Jal Do fasal-II	0.06	Parsuram Bhoi, Ganesh Bhoi S/o Maguni Bhoi, Damodar Bhoi S/o Ganesh Bhoi, Ramamani Bhoi W/o Ganesh Bhoi of Achaka, P.S. Tihidi.
				675	74	Private	Chaka	0.02	Babaji Charan Das S/o Sanatan Das of Baralpokhari.
				1049	58	Private	Chaka	0.04	Ram Karan Agrawal S/o Durga Dutta Agrawal of Baralpokhari.
				1087	98	Private	Karakhana	0.01	Laxmidhar Nayak S/o Muralidhar Nayak of Erei.
				1088	99	Private	Karakhana	0.01	Laxmidhar Nayak S/o Muralidhar Nayak, Snehalata Nayak W/o Laxmidhar Nayak of Erei.
				1173	82	Private	Chaka	0.01	Sadhu Charan Das S/o Nisakar Das of Baralpokhari.
				1192	87	Private	Chaka	0.14	Shyamasundar Mohanty S/o Nisakar Mohanty of Kantapal.
				1192	89	Private	Chaka	0.08	Shyamasundar Mohanty S/o Nisakar Mohanty of Kantapal.
				1351	62	Govt.	Niskasan Nali	0.02	Rakhita Anabadi.
				1351	88	Govt.	Sakha Nali	0.01	Rakhita Anabadi.
16	Ranja	Bhadrak	Bhadrak	874	3393	Private	Gharabari	0.03	Shri Shri Jagannath Mahaprabhu Bije Puri Marfat Rajgopal Ramanuja Das Guru Mahanta Srinivas Ramanuja Das of Kalikadevi Sahi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				874	3394	Private	Gharabari	0.03	Shri Shri Jagannath Mahaprabhu Bijie Puri Marfat Rajgopal Ramanuja Das Guru Mahanta Srinivas Ramanuja Das of Kalikadevi Sahi.
				874	3395	Private	Patita	0.06	Shri Shri Jagannath Mahaprabhu Bijie Puri Marfat Rajgopal Ramanuja Das Guru Mahanta Srinivas Ramanuja Das of Kalikadevi Sahi, Puri.
				874	3396	Private	Gharabari	0.02	Shri Shri Jagannath Mahaprabhu Bijie Puri Marfat Rajgopal Ramanuja Das Guru Mahanta Srinivas Ramanuja Das of Kalikadevi Sahi.
				874	3397	Private	Gharabari	0.01	Shri Shri Jagannath Mahaprabhu Bijie Puri Marfat Rajgopal Ramanuja Das Guru Mahanta Srinivas Ramanuja Das of Kalikadevi Sahi.
				873	3402	Private	Patita	0.15	Amrutamanohi Shri Shri Jagannath Mahaprabhu Bijie Puri Marfat Mahanta Rajgopal Ramanuja Das Guru Mahanta Ramanuja Das of Kalikadevi Sahi, Puri.

[F. No. NHAI/11014/3A(1)/2005/OR-II/Tech/GM (CK-II)/LA-121]
PRABHAKAR, Dy. Secy.